



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 1979/माघ 11, 1900

No. 32]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 1979/MAGHA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 53 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकोहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 39 के अन्तर्गत आने वाले सेल्युलोज ऐसीटेट शीटों और पीट्टियों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उत्तरे भाग से, जितना मूलानुसार शुल्क के 75 प्रतिशत से अधिक है, और

(ख) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से, छूट देती है।

[सं. 26/फा. सं. 355/215/77-सीमा-शुल्क-1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st January, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 53(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts cellulose acetate sheets and strips falling within Chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 75 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act.

[No. 26/F. No. 355/215/77-Cus. II]

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 370 (असा.) 54 (अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 35 की उपधारा (4) के साथ पीठत, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की

धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकीहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 96-सीमा-शुल्क, तारीख 12 मई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“226. सं. 26-सीमा-शुल्क, तारीख 31 जनवरी, 1979।”

[सं. 27/फा. सं. 355/215/77-सीमा-शुल्क-1]  
जॉसेफ डॉमिनिक, अपर सचिव

### CUSTOMS

**G.S.R. 370(E) 54(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 96-Customs, dated the 12th May, 1978, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 225 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“226. No. 26-Customs, dated 31st January, 1979.”

[No. 27/F. No. 355/215/77-Cus. 1]  
JOSEPH DOMINIC, Under Secy.